



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 1983/अग्रहायण 2, 1905

No. 59]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 1983/AGRAHAYANA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

अधिसूचना

NOTIFICATIONS

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1983

New Delhi, the 23rd November, 1983

आ०अ० 113(अ) :—हरियाणा राज्य के 4-सोनीपत
मंसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री देवी
लाल द्वारा त्यागपत्र दे दिये जाने के कारण लोक सभा में
एक रिक्ति हो गई है ;

O.N. 113(E).—Whereas a vacancy has occur-
red in the House of People by reason of the re-
signation of Shri Devilal, a member elected to
the House from 4-Sonepat Parliamentary Consti-
tuency in the State of Haryana,

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951
का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों
के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र में यह
अपेक्षा करता है कि ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए
तारीख 31 दिसम्बर, 1983 (शनिवार) से पूर्व उक्त
अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों और आदेशों के
उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

Now, herefore, in pursuance of the provisions
of sub-section (1) of section 149 of the Represen-
tation of the People Act 1951 (43 of 1951), the
Election Commission hereby calls upon the said
constituency to elect a person to fill the said vac-
ancy before 31st December, 1983 (Saturday), in
accordance with the provisions of the said Act
and the Rules orders made thereunder.

[सं० 100/हरि०-लो०स०/1/82(1)]

[No. 100|HN-HP|1|82(1)]

आ०अ० 114(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/हरि०-लो०स०/1/82-(1) तारीख 23 नवम्बर, 1983 के अनुसरण में, हरियाणा राज्य के 4-सोनोपत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नाम निर्देशन करने के लिए 30 नवम्बर, 1983
अंतिम तारीख (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की संश्लेषा 1 दिसम्बर, 1983
की तारीख (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 3 दिसम्बर, 1983
(शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि 23 दिसम्बर, 1983
आवश्यक हो तो मतदान होगा (शुक्रवार)
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व 31 दिसम्बर, 1983
निर्वाचन समाप्त कर दिया (शनिवार)
जायेगा।

नियत करता है।

[सं० 100/हरि०-लो०स०/1/82(2)]

O.N. 114(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 4-Sonepat Parliamentary Constituency in the State of Haryana in pursuance to its notification No. 100|HN-HP|1|82 (1), dated 23rd November, 1983,

- (a) the 30th November, 1983 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 1st December, 1983 (Thursday), as the date for scrutiny of nominations;

(c) the 3rd December, 1983 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 23rd December, 1983 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 31st December, 1983 (Saturday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100|HN-HP|1|82 (2)]

आ०अ० 115(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/हरि०-लो०स०/1/82(1) तारीख 23 नवम्बर, 1983 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के 4-सोनोपत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये होने वाले उप-निर्वाचन के लिये 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 100/हरि०-लो०स०/1/82(3)]

आदेश से,

ओं०ना०नागर, अवर सचिव

O.N. 115(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken at the bye-election to the House of the People from 4-Sonepat Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100|HN-HP|1|82 (1) dated 23rd November, 1983.

[No. 100|HN-HP|1|82 (3)]

By order,
O.N. NAGAR, Under Secy.